September 09, 2024

Corporate Relations
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-4000 01
(Security Code: 534615)

The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
(Symbol: NECCLTD)

Sub: Publication of Notice regarding E-Voting, Completion of dispatch of Notice of 39th Annual General Meeting & Annual Report.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed notice published on September 08, 2024 in Newspapers viz. Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) informing about Completion of dispatch of Notice of 39th Annual General Meeting, Annual Report and E-Voting details read with other applicable provisions of the Companies Act,2013, rules made there under, and relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs.

This is for your Information and records.

Thanking You,
For North Eastern Carrying Corporation Limited

(Utkarsh Jain) Director

Encl:a/a

Indian Bank ALLAHABAD

E-AUCTION SALE NOTICE

ZONAL OFFICE, CIVIL LINES, MORADABAD

Public Notice for E-Auction Sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 read with provison to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical/Constructive/Symbolic (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on the below mentioned dates, for recovery of under mentioned dues & future interest, charge and cost etc as detailed below. The reserve price and EMD amount for each property has been furnished below.

Last Date of EMD Deposit 24.09.2024 between 10 AM to 4PM

Details of the Property

Name and Address of the Borrower/ Guarantor Name of the Branch

Area, Gajraula, Distt-Amroha -244235. 2.Mr. Jonu S/o Shri Ganga Sharan Singh (Proprietor, Tehsil-Dhanora, Distt, Amroha BRANCH: Indra Chowk, Gajraula, District Amroha

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006

Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com,

Website- www.neccgroup.com

Notice is hereby given that the Thirty Ninth (39th) Annual General Meeting ("AGM") of

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED ('the Company') will be held on

Monday, 30th Day of September, 2024 at 1.00 P.M (IST) through Video

Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of

the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circular

Nos. 25th September, 2023 read with other circulars, issued by the Ministry of Corporate

Affairs ('MCA Circulars') and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations"), without the

physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2023-2024 along with the AGM

Notice and E-voting procedure to the Members was completed on Saturday, September

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email

addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MAS

Services Limited. For the members, who have not registered their email addresses, the

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the

Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic

means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the

Company (remote e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of

National Securities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Act are as

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the

Cut-Off Date i.e. Monday, September 23, 2024 ('eligible Members'), can exercise their

right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the businesses

The remote e-voting will commence on Friday, September 27, 2024 at 9:00 A.M. (IST):

The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on

a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it

The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through

The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through

remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the

Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., September

23, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in

In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGN

Notice but on or before the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024, may obtain

the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM

However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID

The Notice of the AGM is available on the Company's website www.neccgroup.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the

download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990

The above information is being issued for the information and benefit of all the members o

and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

The remote e-voting will end on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 p.m. (IST);

procedure for registering their email id has been provided in the Notice of AGM.

specified in the Notice convening the AGM of the Company;

remote e-voting but shall not vote again in the AGM;

and password can be used for casting vote;

Place: Delhi

Date: 07.09.2024

and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com

subsequently or cast the vote again;

1. 1.M/S Blue Eyes (Borrower) through Prop: Mr. Jonu Singh S/o All that part and parcel of Factory Land and Building (lease) Mr. Ganga Sharan Singh, Address: Plot No I-3, Industrial hold rights for 90 years w.e.f. 2019 from UPSIDC) situated at on 16.02.2024 + interest Plot No I-3, Industrial Area-2, Gajraula Tehsil Dhanaura, Distt. Amroha, admeasuring area about 820 sq.mt. Mortgager and Guarantor) Plot No -268, Chand Nagar, West registered vide lease Deed No. 3153, Bahi No. 1, Zild No. Delhi, Delhi- 110018. Permanent Address: Village-Amheda, 6385. Page No. 283-358 on 22.02.2019 with S.R Dhanora in the name of Mr. Jonu S/o Mr. Ganga Sharan Singh. Bounded by: North: Plot No I-4, South: Plot No I-2, East: Plot No F-12, West: 18 Mtr wide Road no. 2

Outstanding dues ad A) Reserve Price per 13(2) notice for which | B) EMD C) Bid Multiplier property is being sold Rs. 2,17,38,562.00 as Rs. 1,80,00,000/-

Date of Possession 06.05.2024 Nature of Possession Symbolic Possession

and other charges

Property ID No.: IDIB7160777528

Rs. 50,000/-

Rs. 18,00,000/-

Date and Times of E- auction: 25.09.2024 at 12.00 PM to 4.00PM

Contact Person: Authorised Officer: Sudarshan Singh Rana, Mobile No. 9522586655, 9560049759 Indra Chowk, Gajraula, District Amroha: Branch Manager: Vikas Kumar, Mobile No. 8805943385

Bidders are advised to visit the website (1) www.indianbank.co.in (2) https://www.ebkray.in

Bidders are advised to visit the website (https://www.ebkray.in) of our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220. For Registration status and for EMD status please email to support ebkray@psballiance.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://www.ebkray.in and for clarifications related to this portal, please

contact PSB Alliance Pvt. Ltd. Contact No. 8291220220.

Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://www.ebkray.in

Date: 07.09.2024

in the Notice of AGM.

07, 2024.

Place: MORADABAD

Authorised Officer, INDIAN BANK



ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED CIN: L74110HR2017PLC118029

Registered Office: Space Creattors Heights, 3rd floor, Landmark Cyber Park, Golf Course Extension, Sector 67, Gurgaon, Haryana, India, 122102 Tel. No.: 01243531246.

Website: www.lawsikho.com , Email ID: compliance@lawsikho.in

NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Addictive Learning Technology Limited ("The Company") will be held on Monday, September 30, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, without the physical presence of the members to transact following business as set out in the

Notice of the Annual General Meeting ("AGM Notice") dated September 06, 2024: i) Consideration and Adoption of the Audited Standalone Financial Statements of the Company for the Financial year ended 31st March 2024 and the Reports of the Board of

Consideration and Adoption of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial year ended 31st March 2024 and the Report of the Auditors thereon

Re-appointment of Mr. Abhyudaya Agarwal (DIN: 05016416) as a Director liable to retire by Pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the

Act"), read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the Members facility to exercise their right to vote at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means "Remote e-voting") with respect to the business as described aforesaid and duly mentioned Members are hereby informed that the Company has completed sending the AGM Notice along

with the details and process for voting and other relevant details on September 06, 2024 to the shareholders as on the cut-off date i.e., Friday, 30th August, 2024 for the purpose of determining the eligibility of the shareholders, for the purpose of dispatch of the AGM Notice. The Members, whose names appear in the registrar of Members/list of Beneficial Owners as on, September 23, 2024 are entitled to vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Voting Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. The remote e-voting period will commence at 9:00 A.M. on Friday, September 27, 2024 and

will end at 5:00 P.M. on Sunday, September 29, 2024. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any responses received after this date shall be treated as if the same have not been received. The members desiring to vote through electronic mode may refer to the detailed procedure on e-voting given in this AGM Notice and email intimating the dispatch of AGM Notice. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting. Members who have not casted their votes through Remote e-voting may cast their vote at the AGM through Remote e-Voting, as prescribed under the Act.

The Company has appointed Rawal & Co., (Company Secretaries), to act as the Scrutinizer, to conduct the scrutiny of the votes cast. The result of the voting for the AGM shall be declared by the Chairman failing which the same shall be declared by the Company Secretary within the time limit prescribed under the Act. The result shall be disseminated through the stock exchange-NSE and shall also be hosted on the website of the Company apart from display at the registered office. AGM Notice is also available on website of the Company. https://lawsikho.com/. Shareholders.

who do not receive the AGM Notice may obtain the same by sending their request to the Company at compliance@lawsikho.in or our RTA at rta@maashitla.com

If you have any queries or issues regarding e-voting from the CDSL e-voting system, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievance connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (CDSL). Central Depository Services (India) Limited, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (East),

For and on behalf on Board of Directors ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED

Date: September 8, 2024

Komal Shah Company Secretary



Stressed Asset Management Branch SCO 137 & 138, Sector- 8 C, Chandigarh-160009, Tel. No. of India 0172-2721096, Mob. No. 94246-21889, 87095-83732, 99965-40740, STILE NOTE: 78374-25000, 99719-90597, Email: ubin0578711@unionbankofindia.bank

E-AUCTION

Reserve Price

EMD

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular by the Authorized Officer, that the under mentioned property mortgaged to Union Bank of India, taken possession under the provision of Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, will be sold by E-Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further

The property is being sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities

The under mentioned property/ies will be sold by "Online E-Auction through website https://ebkray.in 26.09.2024 from 12.00 NOON to 05.00 PM 1)* Minimum Bid Increment Amount is 1% of Reserve Price and multiples thereof.

2) Any encumbrances over the property/ies is not known to the Bank/Secured Creditor.

By order of the Board of Directors of

Sd/- (Sunil Kumar Jain)

Chairman & Managing Director

North Eastern Carrying Corporation Limited

Name of the Demand Notice Name of the

Borrower/Mortgagor and

No. Account Guarantor M/s SMS International Borrower : M/s SMS International Beverages Pvt. Ltd. Plot No. 49, Industrial Area, Lodhi Majra, Tehsil- Baddi, Nalagarh, Beverages Pvt. Ltd. Distt. -Solan, Himachal Pradesh -173205. (Through Directors Mr. Sudheer Kumar Gupta and Mrs. Babita Gupta) Directors: - 1. Mr. Sudheer Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta, House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka Panchkula, Haryana-133302, 2. Mrs. Babita Gupta W/o Mr. Sudheer Kumar Gupta House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula, Haryana-133302. Guarantor/ Mortgagor 1.Mr. 20.06.2021 together with further interest, cost and

28.06.2021 Rs. 36,00,000/-Rs. 5,20,38,469.82 Rs. 3,60,000/-(Rupees Five Crores) Twenty Lakhs Thirty Eight Thousands Four Hundred Sixty Nine and Paisa Eighty Two Only) as on Sudheer Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, expenses w.e.f. 01.06.2021 Panchkula, Haryana-133302. 2. Mrs. Sangeeta Jindal W/o Anuj Jindal, H.No. 32-A-F4, Shakti Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201010.

Date &

Amount Claimed

Sudheer Kumar Gupta, House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula, Haryana-133302, 5.Mr. Sanjay Mittal, H. No. 126/F. Type-5, Sector- Reliance Greens, Moti Khavdi, Jamnagar, Gujrat-361140.
 Kanchan Mittal W/o. Sanjay Mittal, H.No. 126/F, Type-5, Sector-3, Reliance Greens/Reliance Township, Moti Khavdi, Jamnagar, Gujrat-361140. 7. Mrs. Rachna Agarwal W/o Sanjeev Jindal, Address 1- C/O Rajesh Chand & Sons, Bugrasi Chopal, Siyana Distt. Buland Shahar, UP-203001. Address 2- H. No.03-33, Block-742, Pasir Ris St-71, Singapore Pin Code-730633. 8.Mr. Mool Chand Garg, H.No-233/19, Barampuri, Muzaffarnagar, U.P. 9. Mr. Rajeev Garg S/o Mool Chand Garg, Address 1-Block-633, 03-155, Woodlands Ring Road, Singapore, Pin Code-730633. Address 2- House No.233/19; Brahmpuri, Muzaffarnagar, U.P. 251001 10. Mr. Sanjeev Jindal S/o Rajesh Chand Jindal. Address: 1. Block 742, Pasir RIS, Street 71, Unit -03-33, Singapore-510742. Address: 2. C/o Rajesh Chand & Sons, Bugrasi Chopla, Siyana, District Buland Shahar, UP. Details of the Property/ies to be sold Against Mortgage of (CERSAI Registration Id No: (Security Interest Id - 400005963812 & Asset Id

3. Mrs. Babita Gupta W/o Mr. Pradeep Kumar Gupta, House No. 153/5, Prempuri, Muzaffarnagar, UP-251002, 4.Mrs. Babita Gupta W/o Mr.

200005955957) Residential Flat Jointly belonging to Mr. Sanieev Jindal and Mr. Raieev Garg situated at Flat No. G2. Ground Floor (Back Side) at Plot No. 639, Shakti Khand-3, Indirapuram, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201014 measuring appx 65.00 Sq. Mt and bounded by (As Per latest valuation) East – Plot No. 638, West – Plot No. 640 North – Plot No. 666, South – Front side flat in the same building. Possession: Symbolic Possession).

NOTE: The Sale shall be subject to the outcome of CWP/1110/2022 filed before Hon'ble Delhi High Court & it's pending. Borrower: 1. M/s White House Wedding Hub (Through Prop. M/s White House

Aslam Ali), #403-C, Ward No 4, Block-4, Bali Ram Cloth Market, Wedding Hub Near Dev Samaj Girl Hostel, Ambala City, Haryana- 134003. 2. Sh. (Rupees Thirty Three Lacs Seven Thousand Three Aslam Ali (Prop. M/s White House Wedding Hub), #403-C, Ward No 4, Block-4, Bali Ram Hundred Eighty Four and Paise Forty only) as on Cloth Market, Near Dev Samaj Girl Hostel, Ambala City-Haryana-134003. 3. Smt. Mehrunisha 31.08.2023 together with further interest, cost and W/o Irfan (Guarantor), R/o H.No. 1981, Moti Nagar, Near Pili Kothi, Ambala City-134003.

Rs. 16,70,000/-29.09.2023 Rs. 1,67,000/-Rs. 33,07,384.40 expenses w.e.f. 01.09.2023.

Details of the Property to be sold. All the part and parcel of Residential property / house comprised in land bearing part of Khasra No. 17: Ka/15 in land area 100.37 sq Mtrs. out of which tin shade covered area 44.60 sq. Mtrs. Situated at Mauza Kaulagarh, Pargana Central Doon, Tehsi Sadar Distt. Dehradun. Owned by Smt. Mehrunisha W/o Shri Irfan D/o Late Deen Mauhammad R/o 620/1 Shalimar Colony, Ambala City, Haryana vide Gift Deed No 12480 Dated 07.11.2019. Bounded by: East: 4 Feet wide Road Measuring 24 Feet, West: Property of Others Side measuring 24 Feet, North: Property of Others Side measuring 45 Feet, South: Property of Others Side measuring 45 Feet, CERSAI Id: Asset Id: 200055813706. Security Id: 400055546861 (Type of Possession : Symbolic Possession). For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Secured Creditor's website i.e. www.unionbankofindia.co.in

and website: https://ebkray.in In case of problem related to EMD transfer/EMD refund or any issue related to Finance & account, bidders can directly contact the help desk no. 8291220220 & email ID support.ebkray@psballiance.com. The contact details are also provided in the help desk menu of the login page of the link: https://ebkray.in For Registration and Login and Bidding Rules visit https://ebkray.in STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6)/Rule 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

This may also be treated as notice u/r 6(2), 8(6) & 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s, guarantor/s & Mortgagor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

DATE: 07.09.2024 PLACE : Chandigarh AUTHORISED OFFICER, UNION BANK OF INDIA

SAI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 302, 3rd Floor, C-24, Community Centre Ashok Vihar, Phase-2 Delhi- 110052 CIN: L74999DL1991PLC045678

Email: saiindustries884@gmail.com, Website: https://saiindustries.org.in/ NOTICE OF 33 TO AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 33" Annual General Meeting (AGM) of the

members of Sai Industries Limited will be held on Monday, 30" September, 2024

at 11:30 A.M. (IST) at B-Block, Samrat Enclave, LSC, Delhi-110034, to transact

the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of the 33" AGM along with the Annual Report 2023-24 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2023-2024 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 33" AGM is available on the website of the Company and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com . A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at Remote e-Voting: In compliance with relevant provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with relevant rules and other applicable provisions, the Company is providing the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in

respect of the business to be transacted at the AGM through NSDL, detailed instructions are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on 27" September, 2024 at 9 AM and end on 29" September, 2024 at 5 PM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafte and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on 23" September, 2024 (Cut-Off Date'). Any person who acquires shares and becomes a Member after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990, as provided by NSDL.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24" September, 2024 to 30" September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 33" AGM. Registration of e-mail addresses:

Members (Physical and demat holders) who have not yet registered their -mail addresses are requested to send request to company on https://salindustries.org.in/, in. along with email addresses and scanned copy of PAN to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting.

For Sai Industries Limited Anshu Jain Date: 07.09.2024 Company Secretary

By Order of the Board

HAMPTON SKY REALTY LIMITED

(Formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited) Regd. Office: 205, Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place, Patel Nagar, West Delhi-110008, India

CIN: L74899DL1987PLC027050, Website: www.hamptonsky.in E-mail Id: riteshlimited8@gmail.com, Phone: +91 92123 59076

NOTICE OF THE THIRTY-SEVEN (37th) ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to the members that the Thirty Seventh (37th)

Annual General Meeting ("AGM") of the Members of HAMPTON SKY REALTY LIMITED (formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited) will be held on Monday, 30th day of September, 2024 at 12.15 P.M. through video conferencing ('VC')/other audio visual means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India and other applicable circulars (Collectively referred as "Applicable Circulars") to transact the business as set out in the Notice convening the 37th AGM.

Pursuant to the Act and in accordance with the Applicable Circulars. the companies are allowed to conduct their AGM through VCor OAVM, which does not require physical presence of the Members, Directors, Auditors and other persons at common venue, in view of this, the 37th AGM of the Company is being conducted through VC / OAVM facility. The deemed venue for the 37th AGM shall be the Registered Office of the Company situated at 205, Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place Patel Nagar, West Delhi, Central Delhi-110008. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. In compliance with the aforesaid Applicable Circulars, electronic

copy of the Annual Report for the financial year 2023-24 ("Annual Report") and Notice of the 37th AGM of the Company, inter alia, indicating the process and manner of e-voting have been sent only through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s) ("DP"). Members may note that the notice of AGM and Annual Report will also be available on the Company's website www.hamptonsky.in and website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com. Further, the Notice of AGM is also available on the website of Central Depositories Securities Limited ("CDSL").

The Company has also published a public notice by way of an advertisement dated 6th September, 2024 in Business Standard both in Hindi and English Newspaper along with their electronic editions, inter alia, advising the members who have not registered or updated their email addresses with the Company, RTA or DPs, as the case may be, to register their e-mail id's with them.

In accordance with the provisions of Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in view of the aforesaid Applicable Circulars and SEBI Circulars, the Company has engaged the services of CDSL to provide the facility of voting by electronic voting system to all the Members to enable them to cast their votes electronically during the AGM in respect of all the businesses to be transacted at the aforesaid Meeting. The facility of casting the votes by the Members using such electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote evoting") is also provided by CDSL. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of remote e-voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered or updated their email addresses is provided in the instructions for evoting section which forms part of this Notice.

A person who becomes member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares on the Cut-off date, may obtain the login ID and password by following the detailed procedure as provided in the AGM notice.

Voting rights of the members for voting through remote e-voting or evoting system to be provided in the AGM, shall be in proportion to shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 23rd, 2024. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners (as at the end of the business hours) maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e voting or e-voting system provided in the Meeting. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The remote e-voting period commences from Friday, September 27. 2024 at 9:00 A.M (IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 PM, (IST). Thereafter, e-voting module shall be disabled for voting by members.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evoting.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievance can be addressed to Ms. Tarandeep Kaur, Company Secretary at the registered office of the Company or at email riteshlimited8@gmail.com or at +91-9212359076. By Order of the Board

For Hampton Sky Realty Limited (Formerly Known as Ritesh Properties and Industries Limited) Date : 07.09.2024 (Tarandeep Kaur)

"IMPORTANT"

Place : Gurugram

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Kotak Mahindra Bank Limited

Emd With Kyc

http://bankauctions.in/

Date: 07/09/2024

PLACE: Haridwar, Uttrakhand, DATE: 08.09.2024

Registered Office: 27BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051 Branch Office: Kotak Mahindra Bank Ltd, 7th Floor, Plot No.–7, Sector - 125, Noida , Uttar Pradesh-201313

Sale Notice For Sale Of Immovable Properties E-auction Sale Notice For Sale Of Immovable Assets Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 Under Rule 8(5) Read With Proviso To Rule 9 (1) Of The Security Interest (enforcement) Rule, 2002,

Subsequent To The Assignment Of Debt In Favour Of Kotak Mahindra Bank Limited By " Fullerton India Home Finance Company Ltd (hereinafter Referred To As "FIHFC") the Authorised Officer Of Kolak Mahindra Bank Limited (hereinafter Referred To As "the Bank/ Kmbl/Secured Creditor) Has Taken Thephysical Possession Of Below Described Immovable Property (hereinafter Called The Secured Asset) Mortgaged/charged To The Secured Creditor On 28:02:2024 Notice Is Hereby Given To The Borrower (s) And Guarantor (s) In Particular And Public In General That The Bank Has Decided To Sale The Secured Asset Through E-auction Under The Provisions Of Th Sarfaesi Act, 2002 On "as is Where Is", "as is What Is", And "whatever There Is" Basis For Recovery Of

Rs. 30,27,7447-(rupees Thirty Lakh Twenty Seven Thousand And Seven Hundred And Forty Four Only) Outstanding As On 06-09-2024 Along With Future Applicable Interest Till Realization, Under The Loan Account No. 611707210506925; Loan Availed By Mr. Manoj Kumar & Mrs. Rajni As Per Below Details. Date Of Auction

Between 12:00 Pm To 1:00 Pm With Unlimited Extension Of 5 Minutes Time Of Auction Reserve Price Rs. 18,50,000/-(Rupees Eighteen Lakh Fifty Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD) RS.1,85,000/- (Rupees One Lakh Eighty Five Thousand Only) 24.09.2024 UP TO 6:00 P.M. (IST) Last Date For Submission Of

All That Piece And Parcel Of Property House Admeasuring East 35 Description Of The Secured Asset Feet, West 35 Feet, North 20 Feet, South 20 Feet Total Area 700 Sq. Ft. I.e 65 Sq. Mt., Having 4 Rooms, 2 Latrine Bathroom Stairs At The Ground Floor And 5 Rooms, 2 Latrine Bathroom At First Floor having Total Covered Area 1400 Sq. Ft., Bearing Its Khasra No. 466, situated At Village, Rawali Mahdood, Pargana Jwalapur Tehsil & District

Person North: Passage 20 Feet Wide: South: By Land Of Other Person Known Encumbrances NIL The Borrowers' Attention is invited To The Provisions Of Sub Section 8 Of Section 13, Of The Act, In Respect Of The Time Available, To Redeem The Secured Asset. Borrowers in Particular And Public I General May Please Take Notice That If In Case Auction Scheduled Herein Fails For Any Reason Whatsoever Then Secured Creditor May Enforce Security Interest By Way Of Sale Through Private Treaty. In Case Of Any Clarification/requirement Regarding Assets Under Sale, Bidder May Contact Mir Rahul Rajan (+91 8745077693), Mr. Akshit Solanki (+91 7302111608) & Mr. Somesh Sundriyal (+91 9910563402). Bidder May Also Contact The Bank's Ivr No. (+91-9152219751) For Clarifications.

For Detailed Terms And Conditions Of The Sale, Please Refer To The Link https://www.kotak.com

(en/bank-auctions.html Provided in The Bank's Website Le. www.kotak.comand/or On

Handwar, Boundaries: East: Plot Of Other Person, West: Plot Of Other

For Kotak Mahindra Bank Ltd., **Authorized Officer**

NOVAIRON & STEEL LTD Registered Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt. Bilaspur (Chhattisgarh)

Email: rai_nisi2007@yahoo.com, website: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225-26, Fax: 07752-285213 Extract from the Unaudited Financial Resultsfor the Quarter Ended 30.06.2024 (Rs. in lacs)

Quarter Year to Corresponding **Particulars** Ending 3 months figures ended in the previous year 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 12509.54 56379.57 18240.88 Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period 654.70 -6201.04 -665.55 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#1 449.05 -12745.60 -665.55 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 4. Net Profit / (Loss) for the period after -9380.07 -665.55 449.05 tax (after Exceptional and/o Extraordinary items#) -9386.21 Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and ot her Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital 3613.95 3613.95 3613.95 Reserves (excluding Revaluation -19158.47 -19158.47 -8882.03 Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted Note: a)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com) For and on behalf of Board of Directors

For Nova Iron & Steel Ltd. Sd/- (Dinesh Kumar Yadav) Whole Time Director (DIN 07051856)

JDS FINANCE COMPANY LIMITED Regd. Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netali Subhash Place. Pitampura, Delhi 110034

CIN: L65999DL1984PLC018035, Email: jds@jatalia.in, Website: www.jdsfinance.in NOTICE OF 40™ AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 40" Annual General Meeting (AGM) of the members of JDS Finance Company Limited will be held on Monday, 30

September, 2024 at 11.00 A.M. (IST) at B-Block, Samrat Enclave, LSC, North Delhi, India, 110034, to transact the business as set out in the Notice of the AGM The Company has sent the Notice of the 40" AGM along with the Annual Repor 2023-24 through electronic mode only to those Members whose e-mai addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2023-2024 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 40" AGM is available on the website of the Company and on the websites of the Stock Exchanges viz. <u>www.msei.in</u>. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository

Remote e-Voting: In compliance with relevant provisions of Section 108 of the

Companies Act, 2013 read with relevant rules and other applicable provisions

he Company is providing the facility of remote e-Voting before as well as during he AGM in respect of the business to be transacted at the AGM through NSDL detailed instructions are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on 27th September 2024 at 09:00 A.M. and ends on 29 September 2024 at 05:00 P.M. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on 23" September 2024 ('Cut-Off Date'). Any person who acquire: shares and becomes a Member after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990, as provided by NSDL

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books o he Company will remain closed from 24" September, 2024 to 30" September 2024 (both days inclusive) for the purpose of 40" AGM. Registration of e-mail addresses:

e-mail addresses are requested to send request to company or dsfinancecompany@gmail.com on or before 5.00 p.m. (IST) on 23" September 2024 along with email addresses and scanned copy of PAN to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting. By Order of the Board For JDS FINANCE COMPANY LIMITED

Date: 07.09.2024 DIRECTOR Place : Delhi FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L52324DL1981PLC012033 NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION** Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Shareholders of **FORTUNE**

INTERNATIONAL LIMITED will be held on Monday, 30th September, 2024 at 10:00 a.m. at Amara Farms, Khasra No. 375, Village Kapashera, near Police Chowki, Old Delhi- Gurgaon road Kapashera, New Delhi- 110037 to transact the business as set out in the Notice of AGM. Electronic copies of the Notice of 42nd AGM and Annual report for the year 2023-24 have been sent

Registry (India) Private Limited. Further, shareholders whose e-mail ids are not registered with the Company, may get the copy of Annual Report either on Company's website (http://fortuneintemational.in) or on BSE's website (https://www.bseindia.com). The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24th, 2024 to Thursday, September 30th, 2024, both days inclusive for the purpose of

the 42nd AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by NSDL. All the members are informed that: The ordinary Business as set out in the notice of 42nd AGM may be transacted through voting by

electronic means: The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 27th, 2024 (09:00 a.m. IST)

allowed beyond the said date and time. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is September 23, 2024. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date, i.e.

evoting@nsdl.co.in . However, if a Person is already registered with NSDL for e-voting, ther existing user ID and password can be used for casting vote. Member may note that (a) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, (b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again, (c) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as

The Notice of 42nd AGM is available on the Company's and BSE's Website www.fortuneinternational.in/www.bseindia.com for download.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members, available at downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

> Nivedan Bharadwaj **Managing Director**

Place: New Delhi Date: 07/09/2024

financialexp.epapr.in _____





Company Secretary

New Delhi

fembers (Physical and demat holders) who have not yet registered their

Anil Kumar Jain

Regd. Office: G-4 Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110 028 Tel: 011-25774212-214, Email id: rekha.snvastava2016@gmail.com

to all the Shareholders whose email ID's are registered with the Company's RTA, Purva Share

Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of

and ends on Sunday, September 29th, 2024 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be

By order of the Board For Fortune International Limited

(DIN-00040191)

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising September 23, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request a

well as voting at the AGM through Ballot paper.



विकास लाइफकेयर लिमिटेड

CIN - L25111DL1995PLC073719 पंजीकृत कार्यालयः जी-1, विकास हाउस, 34/1. ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026

फोन नम्बर: 011-40450110, ईमेल - info@vikaslifecarelimited.com

वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जुन, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, और सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में विकास लाइफकेयर लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') 30 सितंबर, 2024 को 11:00 बजे पूर्वा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी/ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से, कंपनी की 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 29वीं एजीएम की सुचना 07 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.vikaslifecarelimited.com पर भी उपलब्ध हैं।

साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेगा। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 और सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 29वीं एजीएम की सूचना में बताए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्टॉनिक रूप से डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश कंपनी की 29वीं एजीएम की सुचना में निहित हैं।

इस संबंध में, सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

1. एजीएम में इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2024 है।

- २. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उपरोक्त अवधि से परे रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3. जिन व्यक्तियों ने नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे ivote@bigshareonline.com पर ई-मेल भेजकर बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- . जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा।
- . जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से वोट देने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- . जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम नोटिस में उपलब्ध है। . स्पीकर पंजीकरण के लिए स्क्रूटिनाइजर और प्रक्रिया का विवरण एजीएम नोटिस में दिया गया है।
- यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप https://ivote.bigshareonline.com पर डाउनलोड सेक्शन के तहत Frequently Asked Questions ('FAQs') देख सकते हैं या आप हमें ivote@bigshareonline.com पर ईमेल कर सकते हैं।

विकास लाइफकेयर लिमिटेड संदीप कुमार धवन निदेशक

दिनांक: 8 सितंबर, 2024 स्थानः नई दिल्ली

(डीआईएन: 09508137)



AVRO INDIA LIMITED CIN: L25200UP1996PLC101013

पंजीकृत कार्यालयः ए-7/36-39, साउथ ऑफ जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपाउंड, गाजियाबाद–201009, उत्तर प्रदेश फोनः 0120-4376091

ईमेलः info@avrofurniture.com, वेबसाइटः www.avrofurniture.com

28 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पढ़ा जाता है, नोटिस एतद्दवारा दिया जाता है कि एवरो इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 28 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार को आयोजित की जाएगी, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी।

वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी एमसीए और सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस का ईमेल / प्रेषण 07 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.avrofurniture.com स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com, बीएसई लिमिटेड htttps://www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए अनुसार एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/ आरटीए या संबंधित डीपी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे अस्थायी रूप से cs@avrofurniture.com पर ईमेल करके कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं और एजीएम की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उसके बाद निर्देशित अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश शामिल हैं। हालांकि, ईमेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम के पहले) और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की स्विधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की स्विधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

इस संबंध में, सभी सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है किः

1. 28 वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से लेन-देन किया जाएगा।

2. सदस्यों के मतदान अधिकार सोमवार. 23 सितंबर. 2024 यानी कट–ऑफ तिथि को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्य या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह केवल एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का हकदार होगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताकर evoting@nsdl.co.in या cs@avrofurniture.com पर ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही छैक्स के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

4. रिमोट ई—वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को (09:00 बजे IST) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को (05:00 बजे IST) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए NSDL द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 एजीएम नोटिस में एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीके, एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश दिए जा रहे

6. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं जो www.evotingnsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अनुरोध भेजें। चौथी मंजिल, "ए" विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 evoting@nsdl.co.in पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित शिकायतों का

समाधान भी करेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए मैसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

के मालिक श्री ललित चतुर्वेदी को स्क्रूटिनेजर के रूप में नियुक्त किया है। 8. परिणाम एजीएम के समापन के अडतालीस घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन्हें समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.avrofurniture.com) पर रखा जाएगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा।

दिनांकः 07 सितंबर, 2024

स्थानः गाजियाबाद

एवरो इंडिया लिमिटेड के लिए एसडी / – सुमित बंसल

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक: 8 सितंबर, 2024

स्थानः नई दिल्ली

कोरल न्यूजप्रिन्ट्स लि.

पंजी. कार्यालयः ए—138, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली—110092 CIN NO: L22219DL1992PLC048398,

ई-मेल : cnpl_5000@rediffmail.com, वेबसाइट : www.coralnewsprintslimited.com

रतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार 30 सितम्बर, 2024 को 12.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें 32वीं एजीएम सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा ९१ के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ के अनुपालन में, सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सहित) तक 32वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। 32वीं एजीएम सूचना के साथ वित्त वर्ष 2023–24 को वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा प्रेषित कर दी गई है जिनके ईमेल आईडी 7 सितम्बर, 2024 को कम्पनी / आरटीए डीपी'ज के पास पंजीकृत हैं तथा अन्य सदस्यों जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, का स्वीकृत पद्धति से भेजी गई है। उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार यह कम्पनी 32वीं एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों पर लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही ।

क) व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

ख) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा, शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।

ग) इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अथवा 32वीं एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2024 होगी। घ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का

सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे mumbai@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर

ड.) 29 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी च) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर देने के बाद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी।

छ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा वे हीं रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

ज) 32वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.coralnewsprintslimited.com तथा लिंक इन्टाइम की वेबसाईट www.linkintime.co.in पर भी स्थापित है।

g) रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/समस्या के लिये कृपया लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि., पता: नोवल हाइट्स, प्रथम तल, सी-1, ब्लॉक, शास्त्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, 011-41410592 से सम्पर्क करें।

स्थानः दिल्ली तिथि: 07.09.2024

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED (CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, RAM BAGH ROAD, AZAD MARKET, DELHI- 110006 Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com,

Website- www.neccgroup.com Notice is hereby given that the Thirty Ninth (39th) Annual General Meeting ("AGM") of NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED ('the Company') will be held on Monday, 30th Day of September, 2024 at 1.00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 25th September, 2023 read with other circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations'), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2023-2024 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was completed on Saturday, September

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MAS Services Limited. For the members, who have not registered their email addresses, the procedure for registering their email id has been provided in the Notice of AGM.

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company (remote e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of National Securities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Act are as

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Monday, September 23, 2024 ('eligible Members'), can exercise their right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company;

The remote e-voting will commence on Friday, September 27, 2024 at 9:00 A.M.(IST); The remote e-voting will end on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 p.m.(IST);

The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again;

The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not vote again in the AGM;

The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., September 23, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM:

In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024, may obtain the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

The Notice of the AGM is available on the Company's website www.necogroup.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance wi1 h the MCA Circulars and the SEBI Circular,

By order of the Board of Directors of Place: Delhi North Eastern Carrying Corporation Limited Date: 07.09.2024 Sd/- (Sunil Kumar Jain) Chairman & Managing Director



एडिक्टिव लिनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड CIN: L7411 OHR2017PLC118029

पंजीकृत कार्यालयः स्पेस क्रिएटर्स हाइट्स, तीसरी मंजिल, लैंडमार्क साइबर पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सेक्टर 67, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122102

टेलीफोन नंबर: 01243531246 वेबसाइटः www.lawsikho.com, ईमेल आईडी: compliance@lawsikho.in

. एतदद्वारा सचित किया जाता है कि एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 7वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 06 सितंबर, 2024 की

सदस्यों की वार्षिक आम बैठक के लिए सुचना

वार्षिक आम बैठक ('एजीएम नोटिस') की सूचना में निर्धारित निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए (i) 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और

उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और उसे अपनाना। (ii) 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और

उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और उसे अपनाना। (iii) श्री अभ्युदय अग्रवाल (डीआईएन: 05016416) की निदेशक मंडल के रूप में रोटेशन के आधार पर

सेवानिवृत्त होने के कारण पुनः निदेशक के रूप में नियुक्ति। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013

('अधिनियम') की धारा 108 और अन्य लाग प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सदस्यों को पूर्वोक्त वर्णित और एजीएम की सूचना में यथाविधि उल्लिखित व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम नोटिस भेजने के उद्देश्य से शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से 06 सितंबर, 2024 को मतदान के विवरण और प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ एजीएम नोटिस भेजना पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम 23 सितंबर, 2024 तक सदस्यों के रजिस्ट्रार/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, वे एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार हैं। जिस व्यक्ति का नाम मतदान की अंतिम तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। इस तिथि के बाद प्राप्त किसी भी प्रतिक्रिया को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वह प्राप्त नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोट करने के इच्छुक सदस्य इस एजीएम नोटिस में दी गई ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और एजीएम नोटिस के प्रेषण की सूचना देने वाले ईमेल का संदर्भ ले सकते हैं। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, वे अधिनियम के तहत निर्धारित अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए एजीएम

कंपनी ने रावल एंड कंपनी (कंपनी सचिव) को डाले गए वोटों की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम के लिए मतदान का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा, अन्यथा अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी सचिव द्वारा घोषित किया जाएगा। परिणाम स्टॉक एक्सचेंज-एनएसई के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित करने के अलावा कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

एजीएम नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://lawsikho.com/ पर भी उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को एजीएम नोटिस नहीं मिलता है, वे अपना अनुरोध कंपनी को compliance@lawsikho.in पर या हमारे आरटीए को rta@maashitia.com पर भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित की जा सकती हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एडिक्टिव लिनंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कोमल शाह AXIS BANK LTD. अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

खुदरा ऋणन और भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा) : जी—9, महिमा ट्रिनिटी मॉर न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, गीगाप्लेव नपीसी–1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, आईरोली, नवी मुंबई–400 708, **पंजीकृत कार्यालय :** 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए

ई-नीलामी बिक्री सूचना

तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पा . । धक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्रत्याभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया वुका है, लोन नंबर पीएचआर063602853670 में श्री शिव कुमार एवं श्रीमती साधना की तरफ प्रत्यामृत लेनदार की 27–08–2024 तक बकाया राशि रू. 10,23,553 /— (रूपए दस लाख तेईस हजार पांच सौ तिरेपन + भावी ब्याज और लागतों की वसूली व लेए दिनांक 16–10–2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। आवश्यक विवरण के लिए कृपया नीचे दी गई नीलामी अनुसूची देखें :--

ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	कोई नहीं
सुरक्षित मूल्य (रू. में)	रू. 10,56,000 / – (रूपए दस लाख छप्पन हजार मात्र)
धरोहर राशि जमा (रू. में)	रू. 1,05,600/— (रूपए एक लाख पांच हजार छह सौ मात्र) "एक्सिस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में जयपुर में देय डीडी/पीओ के माध्या से
बोली वृद्धि राशि	रू. 10,000/- (रूपए दस हजार मात्र)
ईएमडी के साथ बोली/निविदा जमा करने हेतु अंतिम तिथि, समय और स्थान	14—10—2024 के अप. 05.00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर—2, द्वितीर तल, आई—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन नोएडा—201301, उ.प्र. में श्री मुकेश कुमार सिंह को संबोधित।
सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु तिब्धि, समय और स्थान	16—10—2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ई—नीलामी दस्तावेज, जिनर ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि दिए गए हैं, उपरिवर्णित अनुसा सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवासीय बिल्डिंग नंबर एफ12/06, ईडब्ल्यूएस, एफ ब्लॉक, (भू तल) क्षेत्रफल 29.70 वर्ग मीटर, दो कमरे, एक रसोई, एक बाथरू तथा एक डब्ल्य सी विनिर्मित। कवर एरिया 29.70 वर्ग मीटर लोअर लिमिट, मधबन बापधाम आवासीय स्कीम, गाजियाबाद, परगन डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद में अवस्थित।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रत्याभृत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

किसी अन्य सहायता के लिए, इच्छक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश सिंह, मोबाइल नंबर +91-9873015430 पर कार्यालय समय के दौरान पूर्वा. 10 बजे से अप. 4.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। तिथि : 08-09-2024, स्थान : नोएडा हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) एक्सिस बैंक लिमिटेड

VIKAS **ecotech**

बोर्ड के आदेशानुसर

(पी.पी. एस. चौहान)

निदेशक

विकास इंकोर्टक लिमिटेंड

CIN: L65999DL1984PLC019465 पंजीकृत कार्यालय: 34/1, विकास अपार्टमेंट, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 टेलीफोन नंबर 011 4314 4444 | **ईमेल**: cs@vikasecotech.com

वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 17/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, और सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में विकास इकोटेक लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') 30 सितंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी/ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से, कंपनी की 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 39वीं एजीएम की सुचना 07 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनकी मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com पर भी उपलब्ध हैं।

साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 और सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 39वीं एजीएम की सूचना में बताए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश कंपनी की 39वीं एजीएम की सचना में निहित हैं।

इस संबंध में, सदस्यों को आगे सचित किया जाता है कि: 1. एजीएम में इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि

23 सितंबर, 2024 है। 2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उपरोक्त अवधि से परे रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी।

. जिन व्यक्तियों ने नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे ivote@bigshareonline.com पर ई-मेल भेजकर बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन

. जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने

. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से वोट

. जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम नोटिस में उपलब्ध है।

7. स्पीकर पंजीकरण के लिए स्क्रूटिनाइजर और प्रक्रिया का विवरण एजीएम नोटिस में दिया गया है। यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप https://ivote.bigshareonline.com पर डाउनलोड सेक्शन के तहत Frequently Asked Questions ('FAQs') देख सकते हैं या आप हमें ivote@bigshareonline.com पर ईमेल कर सकते हैं। विकास इकोटेक लिमिटेड

दिनांक: 8 सितंबर, 2024 स्थानः नई दिल्ली

राजीव कुमार कार्यकारी निदेशक (डीआईएन: 10271754)

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

सीआईएन: L18101DL1989PLC034528 पंजी. कार्यालयः डीडी-14, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी पोस्ट ऑफिस के सामने, नई दिल्ली-110019 इंमेलः company,affairs@ribatextile.com, वेबसाइटः www.ribatextiles.com

> नोटिस – 36वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग

लदहारा नोटिस दिया जाता है कि रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेंड ('कंपनी') की 36वीं वार्षिक जाम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ('ऑएवीएम') की सुविधा के माध्यम से सोगवार, 30 सितंबर, 2024 को प्रातः 09:30 बजे कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागु प्रावधान और तदधीन विरचित नियमों के तहत आयोजित की जाएगी तथा संबी (सुधीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली, 2015 के सह पटिल कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार कारोबार संचालित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु प्रावधानों और इसके तहत बनाए गुए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन म कॉर्फीरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए ') सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 17/2020, दिनाक: 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनाक 5 मई, 2020, 02/2022 दिनाक 5 मई, 2022 10 / 2022 विनांक 28 विसंबर, 2022 और 09 / 2023 विनांक 25 सिसंबर, 2023 द्वारा जारी (एमसीए परिपन्न) और परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020, 13, 2022, 5 जनवरी, 2023 का परिपन्न और 7 अक्टूबर, 2023 का सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 (सामृडिक रूप से 'सेबी परिपञ्च के रूप में संदर्भित) और 11 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र सेबी / एवओ / सीएकडी / सीएकडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 126. जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("संबी परिपत्र") में छूट प्रदान करता है: उपरोक्त परिपन्नों में प्रदान किए गए ढांचे के विस्तार के संबंध में 36वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमी ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुलाने की अनुमति दी गई है।

नोटिस और वर्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को मेज दी गई हैं, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट(ऑ) के पास पंजीकृत है। वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 07 सितंबर 2024 को पूर्च ही गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम के नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ribatextiles.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वार्षिक रिपोट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपन्नों और सेवी परिपन्नों के मध्यम से समाप्त कर दी

इसके अतिरिक्त यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (एलओडीआर), 2015 के नियम 42 के अनुसार, कंपनी के शदस्यों का रिजरटर और शंधर हरेतातरण वहीं एजीएमं के उद्देश्य से मंगलवार 24 सितंबर, 2024 से सीमवार 30 सितंबर, 2024 लक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

सेबी (एलओडीआर), 2015 के नियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के सह पठित के अनुसार, कंपनी शेयरधारकों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग सुविधा और ई-बोटिंग प्रदान कर रही है, ताकि वे एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में प्रदान किये गये हैं जो सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजे जा रहे हैं। कंपनी ने शेयरचारकों को ई-चोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं

इसके अतिरिक्त, एजीएम के नोटिस, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड के बारे में विवरण और ई–वोटिंग के निर्देश शामिल हैं, सदस्यों को पहले ही भेज दिए गए हैं। ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म शुक्रवार, 27 सिलंबर, 2024 (प्रात: 09:00 बजे) से मतदान के लिए खुल जाएमा और रविवार, 29 सितंबर, 2024 (सांव: 05:00 बजे) बंद कर दिया जाएगा। कंपनी के होयरधारक, जो कट-ऑफ लिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को भीतिक रूप में या दीमेंद्र रूप में शेयर धारक हैं, एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध र इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दाल सकते हैं। कथित तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदता है और एजीएम गोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी कर सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारक है, वह ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईही। और पासवर्ड heldesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध मेजकर या 022-23058542 /या Beetalrta@gmail.com पर कॉल करके प्राप्त कर सकता है। वे सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए गीटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए ई—वोटिंग हेत् लॉगिन क्रेडेशियल प्राप्त करने की प्रेक्रिया इस प्रकार है:

भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियों नंबर, शेयरधारक का नाम शैयर प्रमाणपत्र की रकेन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सल्यापित रकेन की गई मति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सल्यापित स्वीन की गई प्रति) ईमेल द्वारा आस्टीए को Beetalrta@gmail.com पर या कंपनी को Company.affairs@ribatextiles.com पर प्रदान करे।

 डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

 व्यक्तिगत डीमैट शेयरवारकों के लिए – कपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना इंमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-पीटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्ष्अल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य हैं। ं इं-बोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न या शिकायत को कंपनी की इंमेल आईडी

Company.affairs@ribatextiles.com पर संबोधित किया जा सकता है। मेससं विशाल गुन्ता एंड एसोसिएटस एंड एसोसिएटस के मालिक श्री विज्ञाल गुन्ता, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 39686) को निषक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई-वीटिंग और ई-बोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए रक्ट्रिनाइजर के रूप में चियुक्त किया गया है। कृते रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

> (आशा गर्ग) अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक

हस्ता/-

स्थान : ग्रेटर नोएडा

दिनाँक : 06/09/2024

DR. M. INDUSCORP LIMITED 188/1, Ground Floor, D.B. Gupta Road, Dev Nagar, Karol Bagh, New Deht-110005

CIN: L01118DL1985PLC023698 E-Mail Id: dmssy@gmail.com Ph. No.: 011-28715805 NOTICE

Notice is hereby given that: The 38th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September 2024 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company situated at 188/1, Ground Floor, D.B. Gupta Road, Dev Nagar, Karol Bagh, Delhi-110005, to transact the business as

set out in the notice of the meeting dated 4th September, 2024 The Notice along with the Annual Report for the year 2023-24, will be sent by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on 6th September, 2024

The notice of Annual General Meeting can be viewed/downloaded from the CDSL website. www.eirotingindia.com.and.the.Company's website www.drminduscorp.com. Physical.copy.

of the same is available for inspection; during 10:00 A.M. to 12:00 Noon at the registered. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed from

26th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive), for the said Armual

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide a voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business (es) to be transacted at the Annual

The e-voting facility will be available from 27th September, 2024, 09:00 A.M. to 29th September, 2024, 5:00 P.M. after which e-voting shall not be allowed.

The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at the

Any person, who acquire shares of the company and become member of company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request at helpdack evoling@cdsindia.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your rote

Facility for voting through polling paper shall be available at the AGM. Members who have

already cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM In pase of any quaries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked

Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mi Rakesh Dahi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurey, Matatial Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company.

For Dr. M.Induscorp Limited

Prem Prakash

DIN: 00289179

Managing Director

Place: New Delhi Date: 4th September, 2024

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकरण कार्यालय: 302, तीसरी मंजिल, सी-2/4, सामुदायिक केंद्र अशोक विहार, फेज-2, नई दिल्ली -110052

सीआईएनः L74999DL1991PLC045678, ईमेलः saiindustries884@gmail.com वेबसाइटः https://saiindustries.org.in/

33वीं एजीएम, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना तद्वारा सूचित किया जाता है कि साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक अ ठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे (आईएसटी), बी—ब्लॉक, सम्राट न्क्लेव, एलएससी, दिल्ली—110034 में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ 33वीं एजीएम ी सचना केवल - इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनके ई—मेल प कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचन की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप _{रु}र दी गई है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2023–24, अन्य बातों के साथ, 33वीं एजीएम की सूचन और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ vww.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्र निमेटेड('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्द है।

रिमोट ई-वोटिंग : संगिक नियमों एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 ह प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी एनएसडीएल के माध्यम से एजीएम में लेन–देन किये जाने वाले प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में एजीएम के दौरान तथा इससे पूर्व रिमोट ई–वोटिंग व सुविधा उपलब्ध करा रही है, विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। रिमोट ई–वोटिंग , 7 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे प्रांतरू प्रारम्भ होगी तथा 29 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप माप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय _{हर} दिया जायेगा और सदस्यों को कथित तिथि एवं समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदा ो अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मताधिकार 23 सितम्बर, 2024 ('कट–ऑफ' तिथि) तक कम्पर्न के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता और सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर या एनएसडीएल द्वारा प्रावधानित टोल की नम्बर 1800—222—990 पर सम्पर्क करके रिमोट ई—वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवड

बुक क्लोजर : , प्रधिनियम की धारा 91 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में 33वीं एजीएम के उद्देश्य । सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुरतकें 24 सितम्बर, 2024 से 30 सितम्बर, 024(दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

–मेल पतों का पंजीकरण : जन सदस्यों (भौतिक तथा डीमैट धारक) ने अपने ई–मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराए ह एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने तथा रिमोर –वोटिंग हेतु लॉंगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई–मेल पते तथा पैन की रकैन्ड

प्रति के साथ https://saiindustries.org.in/ पर कम्पनी के पास निवेदन भेज दें। कृते साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

S i I d t i AGM 12X6 DS (43)

तिथि : 07.9.2024

Calcom

कैल्कम विजन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सी-41, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 निगमित कार्यालय : बी–16, साइट–सी सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201306

ब्छक्त L92111DL1985PLC021095, दूरभाष : 0120-2569761, फैक्स: 0120-2569769 ईमेल आईडी : corp.compliance@calcomindia.com, वेबसाइट : www.calcomindia.com 39वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही समापन की सूचना

(एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अप. 12:30 बजे (आईएसटी) पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन–देन करने के लिए, आयोजित की जाएगी, जो कि केंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022, 14/2020, 17/2020 20 / 2020 और 02 / 2021 क्रमशः दिनांक 5 मई 2022, 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 5 मई 2020 और 13 जनवरी 2021 ("एमसीए परिपत्र"), और सेबी परिपत्र (सामृहिक रूप में "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित है, के अनुसार, सामान्य स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम सं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। वीसी के

माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने का एक विस्तृत अनुदेश, एजीएम की सूचना मे 39वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि के अंतर्गत कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत है। सूचन और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 6 सितंबर 2024 को पूरा हो गया। उपर्युक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.calcomindia.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी अपने उन सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि, शनिवार, 23 सितंबर, 2024 के अनुसार सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देता है, ताकि वे आगामी एजीएम में अपने वोट का प्रयोग कर सकें। सदस्यगण बैठक स्थल (ई-वोटिंग) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एनएसडीएल को कार्यव्यस्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के अनुसार इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

. ई—वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार. 29 सितंबर. 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

29 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की अनमति नहीं दी जाएगी एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग सुविधा

के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थितन होने की सविधा बैठक शरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में होगी और यह पहले आओ

पहले पाओ के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेज जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या info@abhipra.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिमोट लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन करें। बैठक के दौरान वीसी / ओएवीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जहां कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी। चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं

है, उसे एजीएम की सचना को केवल सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, आरटीए के निदेशक श्री अभिनव अग्रवाल से

info@abhipra.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरणों के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें। यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो कृपया https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में शेयरधारकों के लिये उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें। श्री संदीप कंसल, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, प्रोपराइटर, मैसर्स संदीप कंसल एंड

एसोसिएट्स को एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रविधि से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणाम, कंपनी की वेबसाइट (www.calcomindia.com) पर पोस्ट करके और बीएसई लिमिटेड में प्रस्तुत करके बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के बाद

10. एक सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता हैं, किंतु उसे बैठक में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल–आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे

नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करें भौतिक निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म्स में कंपनी के रजिस्ट्र धारिता और ट्रांसफर एजेंट, अभिप्र कैपिटल लिमिटेड के साथ info@abhipra.com ार विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। सदस्यगण कंपनी की वेबसाइः http://calcomindia.com/investor-relations/forms-download/

नेर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अभौतिक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई धारिता गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। मविष्य में कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगताः

वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी शेयरधारक / सदस्य, जो बोलना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें खुद को पंजीकृत करना होगा और यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें बैठक से कम से कम 3 (तीन) दिन पहले अपना अनुरोध भेजना होगा, जिसमें उनका नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और शेयरों की संख्या और विषयपंक्ति का उल्लेख होना चाहिए, जिसे कंपनी के ई-मेल आईडी यानी Corp.compliance@calcomindia.com पर कैलकॉम विजन लिमिटेड का स्पीकर पंजीकरण करके शीर्षांकित किया जाना चाहिये।

के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

कृते कैल्कम विजन लिमिटेड कंपनी सचिव

राखी शर्मा

स. सं.: ए७२८१२

www.readwhere.com

कंपनी सचिव

स्थानः पानीपत

दिनांकः 07 सितंबर, 2024